



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 1982/बैसाख 1, 1904

No. 125]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 1982/BAISAHA 1, 1904

इस भाग में अभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में
लग्न में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

चीनी का वर्णन

उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क

(राजस्व विभाग)

मुक्त विक्रय चीनी लेवी चीनी

(1)

(2)

(3)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1982

सं० 132/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०कां०वि० 327(अ).-- केन्द्रीय सरकार, [वित्त विधेयक, 1982 के खंड 50 के, जो खंड अन्तर्गत कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उस विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधिका बल रखता है, उपखंड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधम, 1944 के विधम 8 के उपविधम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद्य 1 की उपमद्य (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी उस पर उद्घटनीय उतने उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

1 मई 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित चीनी जो पूर्ववर्ती तीन चीनी वर्षों की तत्सं- बंधी अवधि के औसत उत्पादन से अधिक है।	(सं प्रति क्विंटल)	
	40.00	24.50

परन्तु उक्त सारणी के स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट छूट की रकम, यथास्थिति, मुक्त विक्रय चीनी या लेवी चीनी पर संवेय उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :-- इस अधिसूचना में--

(क) "औसत उत्पादन" से, किसी कारखाने में किसी अवधि में उत्पादित चीनी के संबंध में, प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन चीनी वर्षों की तत्संबंधी अवधि के दौरान औसत उत्पादन अभिप्रेत है।

(ख) "मुक्त विक्रय चीनी" से लेवी चीनी से भिन्न चीनी अभिप्रेत है।

(ग) "लेवी चीनी" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किए गए आवेग के अधीन विक्रय किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिषिक्त चीनी अभिप्रेत है।

(घ) "चीनी वर्ष" से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले और आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

2. उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अवधि के दौरान, उसमें वर्णित कारखाने के संबंध में चीनी के उत्पादन की संगणना करने में,—

- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्रथम आर०जी० 1 में या ऐसे अन्य अभिलेख में, जो कलक्टर उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173-छ के अधीन विहित करे, दिया गया डाटा अपनाया जाएगा;
- (2) गुड़ या खांडसारी चीनी को परिष्कृत करने से अभिप्राप्त चीनी हिसाब में नहीं ली जाएगी;
- (3) किसी पूर्ववर्ती चीनी वर्ष की समाप्ति पर प्रसंस्करण में चीनी गुड़ में छुटे हुए उत्पादों के पुनः संस्करण से अभिप्राप्त चीनी हिसाब में ली जाएगी; और
- (4) खराब या क्षतिग्रस्त या भूरी चीनी के पुनः प्रसंस्करण से प्राप्त कोई चीनी, यदि उत्पादित चीनी के परिमाण में उसे पहले ही सम्मिलित किया गया है, तो हिसाब में नहीं ली जाएगी।

3. जहां उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान पूर्ववर्ती तीन चीनी वर्षों में से किसी के दौरान उत्पादन शून्य या वहां प्रोसत उत्पादन का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :—

ऐसा प्रोसत पूर्ववर्ती ऐसे तीन चीनी वर्षों में जिनमें कारखाने में वास्तव में उत्पादन हुआ था, तत्संबंधी अवधियों का प्रोसत होगा और प्रोसत निकाजते समय उस अवधि या अवधियों को जिनमें उक्त चीनी तीन वर्षों के दौरान उसमें उत्पादन नहीं हुआ था, छोड़ दिया जाएगा।

4. इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे चीनी कारखाने को लागू नहीं होगी जिसमें पूर्ववर्ती सभी तीन चीनी वर्षों के दौरान, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अवधि में उत्पादन शून्य था।

[सं० 132/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फा०सं० 14/12/82-सी एक्स 1]
आर० देव, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1982

No. 132/82-Central Excises

G.S.R. 327 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, read with sub-clause (4) of Clause 50 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes, Act, 1931 (16 of 1931), the force of Law, the Central Government hereby exempts sugar, described in column (1) of the Table below and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise and special duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in columns (2) and (3) of the said Table.

TABLE

Description of sugar	Duty of excise and Special duty of excise	
	Free sale sugar	Levy sugar
(1)	(2)	(3)
	(Rupees per quintal)	
Sugar produced in a factory during the period commencing on the 1st day of May, 1982, and ending with the 30th day of September 1982, which is in excess of the average production of the corresponding period of the preceding three sugar years	40.00	24.50

Provided that the amount of exemption specified in column (2) or column (3) of the said Table shall not exceed the amount of duty of excise and special duty of excise payable on free sale sugar or levy sugar, as the case may be.

EXPLANATION :— In this notification—

- (a) "average production", in relation to sugar produced in a period in a factory, means the average production during the corresponding period of each of the preceding three sugar years;
- (b) "free sale sugar" means sugar other than levy sugar;
- (c) "levy sugar" means sugar required by the Central Government to be sold under an Order made under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);
- (d) "sugary year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following.

2. In computing the production of sugar during the period mentioned in column (1) of the Table in respect of factory mentioned therein—

- (i) the data, as furnished in Form R.G. I prescribed the Appendix 1 to Central Excise Rules 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173-G of the said rules, shall be adopted;
- (ii) any sugar obtained by refining gur or khandasari sugar shall not be taken into account;
- (iii) any sugar obtained by reprocessing of sugarhouse products left over in process at the end of any preceding sugar year shall be taken into account; and
- (iv) any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

3. Where during the period mentioned in column (1) of the said Table, production in any of the preceding three sugar years was nil, the average production shall be determined as under—

The average shall be the average of the corresponding periods among the preceding three sugar years in which the factory had actually produced and the period or periods in which it did not produce during the said three sugar years shall be ignored while arriving at the average.

4. Nothing contained in this notification shall apply to a sugar factory where production during the period mentioned in column (1) of the said Table, during all the preceding three sugar years was nil.

[No. 132/82 CE/F.No. 14/12/82 CX-II]
R. Deb, Under Secy.